


# यीशु मसीहा



सबसी बड़ी कहानी




## काय छै...



**स्वर्गदूत :** परमेश्वर को एक उद्देश्य संदेश वाहक (पन्ना ५)

**आशिष :** सब वात नख जो अच्छी छै। परमेश्वर हमख दैण चाहेज।



**बाइबल :** बाइबल म तुम पढ़ी सकोज की कसो परमेश्वर न अपणा लोग नख लैण गौर सी ध्यान दियो अन उनका सी कसो बरताव करयो।

**प्रभुभोज :** यीशु का चेला ओखी मृत्युख अन पुररुत्थान क याद (स्मरण) करज रोटी अन दाखरस लय न (पन्ना ४१)

**क्रुस :** तकलिफ दैणको साधन जैका ऊपर यीशु खुद ओखी मर्जी सी मरी गयो। यीशु ओखा चेला नख लेण एक चिन्ह बणी गयो। (पन्ना २५-५०)



**(चेला) शिष्य :** यीशु का चेला (पन्ना १८)

**ईस्टर :** यीशु मरैल नमसी जिन्दो हुयो। वख यहूदी लोग फसह को पर्व (त्यौहार) करीकर मनावज। (पन्ना ३८-५४)

**हमेशा को जीवन :** यीशु का साथ जीवन जीवणो यो परमेश्वर को उद्देश्य छै। मृत्यु पर जय प्राप्त करीकर ऊ हमेशा को जीवन छै। (पन्ना २३, २९-३० एवम ५१)

**विश्वास :** परमेश्वर पर भरोसो रखणो अन ओखी प्रतिज्ञा (वचन) नखा ऊपर भी भरोसो रखणो चाईजै। (पन्ना ५८)

**क्षमाप्राप्ति :** परमेश्वर क्षमा करज, जब कि हम लोग नमसी कोई भी ऊ पात्र व योग्य नही हाय, जब हम खुद म परिवर्तन लाय न हमारा पाप नखी क्षमा ओखा सी मागांज तो परमेश्वर म क्षमाप्राप्ति संभव छै। क्योकि यीशुख मरणसी (बलीदान) हम ओखा योग्य बणी गया। (पन्ना ५८)



**परमेश्वर को राज्य :** जहां भी लोग परमेश्वर कि आज्ञा नख मानज, वहां परमेश्वर को राज्य छै।

**पवित्र आत्मा :** परमेश्वर कि आत्मा लोग नखा भितर रहैज, जो भी यीशु का अनुयायी छै। (पन्ना ५८)

**यीशु :** यीशु परमेश्वर को बेटो छै। आर्थात परमेश्वर हमारा साथ छै।

**मसीहा :** अभिषिक्त राजा - मसीहा - (एक हिन्दू शब्द) जो ग्रीक भाषाम अर्थात मसीहा (पन्ना ५२, ५५)

**प्रार्थना :** तुमख परमेश्वर ख साथ धैर्य (धीरज) धरी न अन ऊँची आवाज सी वात (प्रार्थना) करणो छै। (पन्ना १८-१९-४२)


**पुनर्जीवन (पुररुत्थान) :** यीशु मरैल (मृत्यु) नमसी जी उठयो। एक दिन परमेश्वर सब नखा जीवित करग अन ऊ हर एक लोग नखो न्याय करग। (पन्ना ५३, ५६)

**दोबारा आवणो:** जब यीशु धरतीपर दोबारा पछो आवग तो धरती नई हुई जाईग। परमेश्वर क द्वारा सब कुछ नयो हुई जाईग। (पन्ना ५७)

**शैतान :** जो उद्देश्य स्वरूप म छै, ऊ परमेश्वर अन लोग नखो दुश्मन छै।

**पाप :** ऊ वात नखा हम परमेश्वर क इच्छक विरुद्ध (विपरित) करांज। अन परमेश्वर को जो उद्देश्य हमारा लैण छै। ओखा सी हमख दुर रखज। (पन्ना ४)

**परमेश्वर को बेटो :** यीशु जो परमेश्वर को बेटो छै, ऊ इन्शान को रूप लयन संसार म आयो।



## ❖ यीशु मसीह कुण छै ?

यीशु २०२१ वर्ष पूर्व इस्त्राइल म रहयो । ओख हम यीशु मसीहा या फिर यीशा मसीहा कईसकाज । अर्थात ऊ एक राजा छै, परमेश्वर को बेटो भी छै । इन्शान को रुपधारन करी न ऊ ईना संसार म आयो । आखा कारण औख इन्शान को बेटो भी कवांज । बाईबल म इतिहास बताएल छै कि औखो जीवन कसो छै । ई एक महान कहानी छै ।


## ❖ यीशु को समय

हमारो भी इतिहास यीशु का जन्म सी शुरू छै, ऊ समय म लोग सफर करता था गधा, घोड़ा, अन उट नसी । तब रोमी साम्राज्य यूरोप, मध्य पूर्व अन उत्तर आफ्रिका म रहीता था । घणा सारा लोग लिखनो पढनो नही जानता था इस्त्राइल म यहूदी नख आज भी किताब (बाईबल) का लोग कहैज ।

परमेश्वर किताब मसी वात नख करज  
ऊ छै बाईबल ऊ सब देखाडन वालिई वात नखो  
निर्माता छै । यीशु साफ-साफ बतावज । कि ऊ  
हम लोग नसी दोस्ती को नमोनो पेश करज ।



## ❖ यीशु का समय में इस्त्राइल



**राजधानी :** यरुशलेम

**बड़ा गाव :** गलील सामरिया, यहूदीया

**लम्बाई (विस्तार) :** लगभग २८००० कि.मी. (१०८१० मील)


**मोसम :** उष्ण कटिबंध

**राजनैतिक :** यीशु मसीह सी पहीलह रोमी साम्राज्य को हूकूम ६३ बी.सी. में चलतो थे।



**सरकार :** रोमी राज्यपाल इस्त्राइल में राज्य करते थे।  
औम प्रमुख पिलातुस थे।

**धर्म :** यरुशलेम में यहूदी लोग नखो मंदीर छे। औम यहूदी पुजारी सब धार्मिक काम करज। अन बाइबल मसीह लोग नख ऊ सिखाइज।


**भाषा :** वहाँ कि भाषा हिन्दू ग्रीक लॅटिन छे। ग्रीक भाषाख अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी बोलाज।



ई सब लोग नदी का धड़म क्यों इकठ्ठा हुयाज ?




एक नयो जीवन  
शुरू करो




परमेश्वर को न्याय को कुल्हाडो  
झाड नखी जड़ नखा ऊपर  
धरेल छै।



हर एक झाड़ख जो फल नहीं  
पैदा करतो हाय औख ऊ  
काटी दैईग।




हम सब नख ऊ काटी सकज।  
कुण अच्छौ सक्ख्म है, जीवन  
जीवणख लैण।




बिलकुल सही छै। कोई भी परमेश्वर का  
न्याय सी छुटी नहीं सकतो। हमारा पछह  
कोई आई रहयो, ऊ हमख परिवर्तन  
करी सकज।

यदि तुमख सच-मुचम जीवन म  
परिवर्तन चाईजै तो तुम अपणा  
पाप नख मानी लैव अन पानी  
म डुबीन बपतिस्मा ली लैव।





तुम्हारा पाप धौवाय गया।  
आ व तुम नयो जीवन  
शुरू करो।




सब लोग वख नदी म बपतिस्मा दैण  
वालओ यहुन्ना कहीता था ।

हाऊ ऊ योग्य नही हाय । हाऊ  
तो सिर्फ रास्तो तैयार करि  
रहयोज । ऊ यीशु हमख  
बतावग परमेश्वर कुण छै ।  
ऊ लोग नख परमेश्वर कि  
आत्मा सी अन आग सी  
बपतिस्मा देर्इग । ऊ हमरा  
अन्दर बदलाव लावग ।

अन तब



मख थारा हाथ  
सी बपतिस्मा  
लैणो अति  
आवश्यक छै ।



तब स्वर्ग मसी एक आवाज निकलिई



हाँ तु म्हारो बेटो  
छै । मख धारा  
सी प्रेम छै,  
अन थारासी

हाऊ प्रसन्न छै ।

मख इता रीती सी  
परमेश्वर की इच्छा ख  
पूरी करणो छै



परमेश्वर थारो राज्य  
आई जाई, अन थारी  
इच्छा पूरी हुई जाई




ऊना समय म शुरूआत सी यहून्ना बपतिस्मा  
दैणवालो इस्त्राइली लोग नख मसीहा आवग  
असो कईतो थो । अन उनख तैयार करतो थो ।  
ऊ समय म इस्त्राइल का लोग रोमी साम्राज्य  
को एक छोटो सो भाग थो ।



इस्त्राइल का यहूदी लोग  
अकेला लाचार दबेल अन  
खिन महसुस करता था ।  
ऊ सब लोग मसीहा  
कब आ व ग ओखो  
रास्तो देखता था ।  
पुराना यहूदी लोग  
नखी किताबम  
भविष्यद्वाणी करेल  
थी । कि ऊ हमख  
हमारा पाप नसी  
छौडा व ग । अन यो  
मसीहा परमेश्वर का  
न्याय सिहांसन का  
पास जीत दै वाडग ।

यरदन नदी का पास यहून्ना बपतिस्मा दैणवालओ यीशु  
की तरफ इशारो करी न बतायो ।

जरा देखो यो छै  
परमेश्वर को मेम्नो  
(बच्चो) जो संसार  
का लोग नखा पाप उठाइ  
न लई जाणवालओ छै ।



यीशु को बपतिस्मा हुई जाणख बाद  
परमेश्वर कि आत्मा ओख जंगल  
म लई गई ।



ऊ ४० दिन अन ४० रात तक जंगल म रहय्यो अन वहाँ ओन्ह  
कई भी नही खाय्यो । अपणा पूर्ण उद्देश्य ख देखी न ओन्ह  
वहाँ उपवास प्रार्थना करी ।



यीशु की इच्छा छै, कि परमेश्वर को  
उद्देश्य संसार म सफल हुई जाई ।  
मरैल जसी जिन्दगी जीवज ऊ लोग  
नख पकड़ी न ऊ छुडावज । ई ओखी  
खास योजना छै ।

शैतान को राज्य अंधकार म छै । ऊ संसारख नास अन  
मृत्यु कि तरफ लई जाई रहय्योज ।



हाँ पिता ।  
जो तु  
कई औख  
पूरो करुंग ।




शैतान यीशुख लालच दी रहव्यो थौ।  
अन परमेश्वर का उद्देश्य सी दुर करनह चाहतो थो।

तु सचमुच परमेश्वर को बेटो  
छै तो ई पत्थरख रोटी बणाई द।

नही असो लिखैल छै। इंशान  
केवल रोटी सी ही नही बल्कि  
परमेश्वर का वचन सी जीवत  
रही ई ग।




यदि तु परमेश्वर को बेटो छै।  
तो अपणा आपख ई मंदीर का  
ऊपर सी गीराई द। क्योंकी  
लिखैल असो छै। स्वर्गदूत तुख  
हाथ नम उठाई लैइग।




यो भी लिखैल छै  
तु परमेश्वर की  
परिक्षा मत कर।

अगर तु मख नमस्कार करहग अन  
म्हारी उपासना करहग तो तुख हाव  
पृथ्वीपर सब अधिकार दी दैवगं।



शैतान यहाँ सी चली जा। क्योंकी  
लिखैल छै। केवल परमेश्वर की  
उपासना कर अन ओकी सेवा कर।


तब शैतान यीशु का पास सी चली  
गयो अन स्वर्गदूत आईन ओखी  
सेवा करनह लगी गया।







उतर इस्त्राइल बड़ी दुर तक फईलैल  
प्रान्त थो। ऊ देशम यीशु बढतो गयो।  
बहुत सारा लोग नख शक यो थो। की  
जो भविष्यद्वाणी यीशु का बाराम करैल  
थी। ऊ मसीहा यो छै या आरु काई छै।  
यीशु तो गलीलम पवित्र आत्मा सी  
भरतो गयो।







गलील प्रान्त का काना गंवम कोई एक जन को याव थो ।




अपनी माई अन ऊ चैला नखा  
साथम यीशु भी वहां थो ।






कफरनहूम मछवारा नको एक गांव थो । गलील झील का पास यीशु न परमेश्वर को राज्य काई छै प्रचार करनो शुरू करयौ ।




वहाँ यीशु न अपनो पहीलो चेलो बणाय्यो




पतरस, धणीक पाणी म जाई न मच्छी मारन की जाल वहाँ डाल ।




स्वामी हमन पूरी रात मेहनत करी पर हमख मच्छी नही पकडाई ।





तोभी तु कई रयोज एका लैण हाँ जाल डालुगा




यो काई हुई गयो मख विश्वास नही हुई रयो हाय ।






यीशु चेला नखा साथ सम्पूर्ण  
गलील प्रान्त म गयो । वहाँ  
सब लोग नख परमेश्वर को  
राज्य कसौ छै, ओन्ह बतायो ।  
अन ओन्ह सब प्रकार का  
रोगी नख चंगो करयो ।  
आरु दुष्ट आत्मा ओखा  
शब्द सुनता था ।




जो भुखैल छै ऊ धन्य छै ।  
क्योंकी ऊ तृप्त हुई जा ई गा ।



जो रडी रह्याज ऊ धन्य छै  
क्योंकी ऊ फिरसी हा स ग ।



धन्य छै तुम लोग क्योंकी म्हारा  
कारण लोग तुम्हारा सी बैर करज ।  
पर तब तुम आनन्दित हुईन  
उछलजो क्योंकी तुम्हारा लैण  
स्वर्ग म बडो प्रतिफल छै ।



जसौ बरताव तुम ख दुसरा नसी चाई जे वसौ  
बरताव तुम उनका साथ भी करो ।

शुत्रु नसी प्रेम करो । आरू  
उनका लैण प्रार्थना करो ।

दीखावटी काम मत करो । अच्छी  
वात नख गुप्तम (एकान्तम) करो ।

जो काई भी बाई (स्त्री) जख बुरी नजर  
सी दैखज । ऊ अपणा मन म  
व्यभिचार करज ।

आख शरीर को दीयो छै । थारी आख  
भली छै । तो थारो पूरो शरीर प्रकाशित  
होईग । पर थारो आख दुषित छै तो तु  
अंधकार म हई जाई ग ।

कोई भी दास दुई स्वामि नखी सेवा  
नही करी सकतो । जसोकी परमेश्वर  
अन धन ।

कल की चिंता तुम क्यों करोज ।  
फहील तुम परमेश्वर को राज्य दुड़ो ।  
तब तुम ख बाकी की सब चिज न  
मिली जा ई ग ।

तुम यदि म्हारा वचन पर चल्या तो तुम उनका जसा ठहरोगा,  
जो अपणो घर चड्डान पर बणायो । अन म्हारा वचन पर  
नही चल्या तो तुमन अपणो घर रेत पर बणायो ।

एक दिन कफरनहूम म यीशु का घर का सामन लोग नखी भीड़ हुई गई थी।

हम भीतर नहीं  
जाई सकता हाँई।

वहाँ  
छत होईग।

उनखी आवण दैव। उनको  
विश्वास बड़ो छै।

वहाँ ऊपर  
काई चली  
रहयोज?

तुम्हारा पाप नखी  
क्षमा हुई गएल छै।


तुमन ऊ काई सुन्यो?  
ऊ यो सब कसो की सकज?

ऊ मुर्ख छै।


केवल परमेश्वर ही छै।  
ऊज पाप नसी छुटकारो  
देवाड़ी सकज।

एक लगंडा इंशानखी यो कहीनो  
आसान छै की थारा पाप क्षमा हुई  
गया या आ अब उठ खडो हुई जा?


पाप क्षमा कर न को अधिकार  
मसीह यीशुख दीएल छै। पर  
हाव तुख यो कई रहयो की  
आपणी खाट उठा अन चल फिर।



लेकिन वहाँ पर हर काई यीशु  
का काम नसी खुश नहीं थो।  
पवित्र दिनख यीशु काई करज  
धार्मिक प्रधान लोग ऊ वात  
न पर ध्यान लगाएळ था।  
इस्त्राइलम सब्त का दिन  
कोई भी काम करना पर  
बड़ी पाबंदी थी।






अपनो हाथ जरा आग बढ़ा








हाँ जरुर म्हारो हाथ  
अच्छो हुई गयो।

हम न उँ यीशु ख  
चंगो कर त  
देख्यौ।




यरुलेम का प्रधान ख  
जरुर बता उँ नो है।  
कि यो गलत मार्ग  
अन राज्य का बाराम  
भई काई रहयोज।



यीशु अन ओखा चेला गलील की झील मसी हुई न जाता था




शांत हुई  
न रुकी जा



ओन्ह उनकी जहाज ख  
किनारा पर बांधी ली।




वहाँ दुष्ट आत्मासी पिडीत एक  
इंशन थो। जो समशान घाट  
म रहीतो थो





ऊ आई रयो

ऊ बहुत करुप छै




अच्छो-अच्छो  
यीशु



दुष्ट आत्मा म ख  
छोड़ी न चली जा

हे सर्वशक्तिमान  
परमेश्वर का  
बेटा तु ख  
म्हारा सी काई  
काम छै?




थारो नाव  
काई छै?








सेना क्योंकी हम  
बहुत जन छै।




एना सुअर  
नम हमख  
भेजी द।


जाओ









हाव तुमख कई रहयोज बेटो  
अपणा आपसी कईनी करी  
सकतो । हाव सिर्फ ऊज करुंज  
जो पिता मख कई न ओखी  
इच्छा पूरी कराडज । ऊ एक छै ।  
जेन्ह मख भेज्या ।




यीशु हमेशा शुनशान जगह पर  
प्रार्थना करयाँ करतो थो ।




रातम प्रार्थना कर्नख बाद  
यीशु न ऊनख दुई-दुई करी  
न बाहर भेज्यो, अन ऊनख  
दुष्ट आत्मा, सब पुकार  
का रोग न पर अधिकार दीयो ।



पतरस अन अन्द्रियास  
ई दुई भाई छै ।




याकुब अन यहून्ना




फिलीप्पूस अन बरतुल्मै


थोमा अन मत्ती  
(मत्ती रोमी अधिकारी न म कर  
जमा करतो थो)




तदै अन दुसरो याकूब



शमौन अन यहूदा इस्करियोती




जाओ जो कोई तुमख ग्रहण करग,  
ऊ मख भी करग अन जो कोई मख  
ग्रहण करग ऊ जेन्ह मख भेज्यो  
ओख ग्रहण करज।



ई १२ चेला यीशु न ऊनख जो  
काम सोप्या था। ऊ कामख करी  
न पछा आया। फिर यीशु एकान्त  
जगह म जाण्ण की कोशिश करी  
रख्यो थो। पर भीड यत्री थी की  
ओख छोड न ख तैयार नही थी।

फसल बहुत छै। पर मजदुर थोडा छै।  
परमेश्वर सी प्रार्थना करो की ऊ  
फसल नख काटणख मजदुर नख भेज्ह।



वहाँ बहुत देर हुई गई क्योंकी यीशु बोली रहय्यो थो। अन लोग अच्छ (चंगा) हुई रहय्या था।



एत्रा सारा सब लोग नखा लैण हम  
रोटी कहा सी लावाना? तुम उन ख  
खाण क कई दैउ?



२०० दिनार चांदी की रोटी भी  
उनका लैण पूरी नही हुई  
सकती हाय।




यहाँ एक छोरो छै। ओखा पास  
पांच रोटी अन हुई मच्छी छै।

लोग नख यहाँ ५०-५०  
की पंक्तिम बठाड़ी देव।




यीशु परमेश्वरख धन्यावाद दी

न ऊ रोटीख तोड़ज।



जब यीशु भोजनख  
आशिषम बदली न  
दुई गुना करी दैज।  
तब वहां हजारो  
लोग रोटी खाज।



ॐ सीहा छै। जो  
आवणवाल्लौ थो।


हमख राजा  
मिली गयो।



आओ जरा यहां  
देखो १२ टोकरी  
न भरैल रोटीसी  
बची गई।



आब लोग नखो समय हुई गयो घर जाण को तुम नाव  
लईन दुसरी तरफ जाओ। हाव पहाड़ पर प्रार्थना करुंगा।



बाद म







ऊ भूत छै काई









प्रभु यदि तु छै तो म ख  
भी थारा पास पानी पर  
चली न आवण की  
इजाजद द

पतरस  
आई जा



पतरस तु न  
मन म  
संदेह क्यों करयो

वहाँ बहुत सारा लोग यीशु ख राजा कहीता था। उनकी असी आशा थी, की यीशु का अधिकार सी रोमी अधिकारी भागी जाई ग। यीशु का विरोधी लोग बढ़ी रहया था। ऊ हमेशा ओखी अलोचना करी रहया था। यीशु का बाराम लोग नख भड़कावता था अन ऊ चाहता था। कि लोग यीशु सी अलग हुई जाई।




जब यीशु को विरोध बढ़तो गयो ।  
तब ओन्न गलील प्रान्तख छोड़ी  
न इस्त्राइल का दुसरा क्षेत्र म  
ओखो काम पुरुष अन स्त्री  
नखा साथ जारी रख्यो ।

गालील

यरुशलेम

इस्त्रायल

फिर ऊ यरुशलेम म  
र ही न लगी गयो






सफर करतो जाई न

लोग म्हारा बाराम काई  
सोचज, हाव कुन छै?

ऊ सोचज की तु  
एक भविष्यद्वाक्ता छै ।



अन तुम ?

तुम काय सोचोज  
की हाव कुण छै?




जीवित परमेश्वर को बेटो  
तु ऊद्धारकर्ता एक मसीह छै ।

कोई नख मत बताओ कि मसीह को यरुशलेम म  
अनादर हो ई ग अन ओ ख मृत्युदंड मि ल ग । लेकिन  
ऊ तीसर दिन कब्र मसी फिर जी उठ ग ।





यरुशलेम देश का बाहर हमेशा लोग नख रोमन तरीका सी सजा मिलती थी।





यदि जै ख भी म्हारा प छह आवणो छै  
तो ऊ आपणो क्रस (समस्या) उठाई  
न म्हारा प छह हुई लैई ।

जो कोई आपणो प्राण बचाणो चा हैज  
ऊ ओ ख खो व ग अन जो कोई भी  
आपणो प्राण म्हारा लैण खो व ग, ऊ  
ओ ख बचाव ग ।




तुम यो केवल जाणी लैव  
की एकक्रज परमेश्वर छै ।

बहुत जरुरी यो छै की तुम परमेश्वर सी सम्पूर्ण मन सी  
प्रेम रखो अन जसो अपणा आपसी प्रेम रखोज वोसोज  
तुम दुसरा सी भी प्रेम रखो ।





ऊसमय म इस्त्राइल म कोढ़ी हुईल लोग रहीता था। ऊरोग उनका ऊपर भयानक रोग थो। असा लोग गांव सी बाहर रहीता था। उनख अच्छा लोग नसी मिलण नहीं देता था। रहीता था। उनख अच्छा लोग नसी मिलण नहीं देता था।












कोढ़ी हुईल लोग जब कही बाहर जाता था तो। ऊ लोग जोर सी चिल्लाईन दुसरा लोग नख सावधान करता था की ऊ कोढ़ी लोग आई रव्या।

कोढ़ी - कोढ़ी



प्रभु यीशु हमारा ऊपर दया कर।





यहूदी प्रधान यरूशलेम म  
यीशु का प छह गुप्त तरिका  
सी लोग नख भेज्या  
करता था। यीशु का कार्य  
का प्रति ऊ  
बहुत विरोधि था।

ऊ बुरा लोग नखा सम्पर्कम रहीता था। जसा  
की वैश्या कर लैणवाला अन रोमी अधिकारी।

मसीह खो वाएल लोग  
न ख ढुढन अन उन  
ख बचावण अ न उनको  
उद्धार करण आएल छै




क्योंकी यीशु सब्त का दिन  
लोग न ख चंगो करज।





अब तू  
चंगो हुई जा







आरु ओको छोटा बच्चा न पर  
खास ध्यान रहितो थो

बच्चा न ख म्हारा पास  
आ वण दैउ  
परमेश्वर को राज्य ई बच्चा  
न खौ छै।




बैतानिया यरुशलेम का पास  
लग-भग दुई मिल की दुरी पर थो।  
वहां एक लाजर नावको मनुष्य  
बीमार थो। लाजर की दुई बहीन  
मर्था अन मरियम यीशु सी प्रीती  
रखती थी।  
जब यीशु ऊ गांवम वापस आवज  
अन यो सुनज कि लाजर मरी गयो  
अन ओख कब्रम धरैल चार  
दिन हुई गया था।





यरुशलेम का अधिकारी यीशु अन ओ  
खा चेला न पर नजर रखैल था।




ऊ इंशान बहुत सारा  
चिन्ह देखाडज।

यदि हम न ओ ख  
असोज छोड़ी दीयो तो  
सब लोग ओखा ऊपर  
वशिवास करी लै इ ग


ऊ हमारा मंदीर अन  
राज्य ख नष्ट कर ग।



तुम जरा सोचो की पुरा राज्य  
का नाश हुवण सी अच्छो छै।  
कि एक मनुष्य हमारा पाप  
नखा लैण मरा।










ए खा कारण यीशु  
को मरणो आ ब  
जरुरी छै।




तब यहुदी प्रधान यीशु ख  
पकडन ख तैयार हुया। अन  
रोमी लोग न ख सोपण की  
कोशिस करी रहया था। ऊ  
मृत्युदंड दे ण की सजा का  
अधिकारी था।


यीशु बैतनिय्याह म थो








फसह को त्योहार पास आई रहयो थो। अन  
लोग यरुशलेम कि यात्रा करी रहया था।




यरुशलेम म अधिकारी लोग यीशु ख  
पकड़न की योजना बनाई रहया था। यीशु  
भी उन नगर की तरफ बढ़ी रहयो थो।





राजधानी का बीच म आराधना  
को मंदीर थो



फसह का त्यौहार का समय म  
भेड नखी बली करी जाती थी।




भेड न ख मंदीर म बली करी कर  
परमेश्वर अन मनुष्य म मैल  
मिलाप करता था।




लेकिन किस प्रकार की भेड की भेट  
चढ़ाइन लोग नख अपणा पाप  
नसी मुक्ति मिली सकज?
















मंदीर का अन्दर लोग व्यापार अन पैसाको  
लेण-देण करता था।






यीशु भी वहां थो।








फसह का पर्व सी  
पहील यीशु मंदीर म  
संदेश दी रहयो थो  
प्रधान याजक ओखा  
लैण कुछ समस्या  
खड़ी करी रहया था ।









ई दुख भोगण का पहील हाव फसह  
को भोजन तुम्हारा साथ करूँ।  
एखो हाव रास्तो देखी रहयो थो।







अधिकारी लोग दुसरा नसी सेवा  
कराड़ी लीता था। लेकिन हाव  
तुम्हारा साथ असो नहीं करुगाँ।


यो अधिकारी तुम्हारो  
सेवक ब ण ग।



हाव तुम्हारा सेवक जसो छै








ई रोटी लैव  
म्हारो शरीर छै ।




यो प्यालो लैव जो म्हारो लहू छै । जो  
तुम्हारा लैण औवाडैल छै । एनी रिति  
सी परमेश्वर तुम ख नई आज्ञा  
म बांधी रहयोज ।

एक नई आज्ञा हाव तुमख दी  
रहयोज । तुम भी एकदुसरा नसी  
प्रेम रखो । जसो म न तुम्हारा  
साथ रख्यो ।

यदि तुम्हारा म प्रेम छै । तो  
सब लोग नख पतो चल ग की  
तुम म्हारा चेला छै ।



प्रभु हाव तुम्हारा साथ हमेशा  
रहऊंगं । तुम्हारा लैण हाव  
अपणा प्राण भी त्यागी दैव ग ।



पतरस ऊ घडी मुर्गो बांग दैए ग  
अन तु तीन बार म्हारो इंकार  
करी दैए ग ।

शाम म यीशु अन ओखा चेला गांव छोड़ी दैज ।

पर यहूदा उनखा साथ नहीं रहीतो हाय ।

हाव तुम ख छोड़ी रहयोज । पिता तुम ख पवित्र  
आत्मा दैए ग ऊ तुम्हारी मदत कर ग ।  
अन हमेशा तुम्हारा साथ रही ग ।

जहा हाव जाई रहयोज ऊ  
जगह तुम ख पतो छै ।







रास्तो, सत्य अन जीवन हाव छै ।  
म्हारा बीना कोई भी पिता का पास  
नहीं जाई सकतो हाय ।

तुम यहां रुको । हाव प्रार्थना करण  
आ ग जाई रहयोज ।

पिता यदि हुई स ख तो  
यो दुख म्हारा सी दुर लई जा ।

परन्तु फिर भी म्हारी इच्छा नी ।  
थारी इच्छा पूरी होय

इना समय म तुम कसा सुई सकोज? जागता रहो।  
अन प्रार्थना करो। देखो म ख पकडण वाल्लो  
आई रहयोज



यीशु ख महायाजक का घर लई गया।  
पतरस भी उनका साथ थो।  
तब ओखु कुछ लोग कई न लग्या



पतरस आंगन म गयो




काय तु भी य  
खा साथ छै?



नही - नही हाव  
ओ ख नही  
जाणतो हाय।

काय तु उनखा न म  
सी एक नही हाय?








बिलकुल भी  
हाव नही हाय

जरुर ई भी उनका साथ छै।  
क्योंकी यो भी  
एक गलीली छै।




हाव नही जाणतो तु  
काई कई रहयोज।



यीश ख रोमी पिलातुस का साम न लई गया। यहूदी याजक ओखा ऊपर नजर लगाएल था। ऊ सब प्रकार को दोष ओढ़खा ऊपर लगावण लग्या।





यो दोष थारा ऊपर लगाएल छै।  
ओखा विषय म तु काई कज?



तु न  
काई करयो?

हाव सत्य  
की गवाही  
दै ण  
आएल छै

फसह को पर्व आई रहयोज।  
हाव कै ख छोडू बरअब्बा ख या  
यीशु ख। क्योंकी म ख ई इंशान म  
दोष नही मिल्यो।



बरअब्बा

बरअब्बा

पर हाव ई योशु  
ख काई करूं?

औ ख क्रुस पर  
चढ़ाई द। क्रुस पर।

औ ख लगज  
की ऊ राजा छै।

यदि तुम ओ ख छोड़ी दैवग  
तो तुम कैसर का दोस्त  
(मित्र) नहीं रही ण का

बदला म तुम ख  
छोड़ी रहयाज

बर अब्बा ख छोड़ी दी गयो। ऊ  
राज्य म कत्तल का बाराम दोषी थो।

..... ३७ ३८ ३९

ओखा लहू का  
बाराम हाव निर्दोष छै।

है यहूदी का राजा

ऊ इंशान ख देखो




औ ख क्रुस पर चढाओ

औ ख क्रुस पर चढाओ

औ ख क्रुस पर चढाओ

पिलातुस न ऊनकी वात न  
ख माती लियो | क्रुस पर  
चढाऊनो एक डरावनी मृत्यु जसो  
थो | यीशु ऊ क्रुस ख उठाई न  
बड़ा कष्ट क साथ ऊ रास्ता  
सी जाई रयो थो |







यीशु ख सैनिक न  
क्रुस पर चढाई दी यो ।



यहूदा ख आपणी गलती को  
एहसास ऊ समय म हुयो

म न निर्दोष को खुन  
ओवाडीन बडो  
विश्वासघत कय्यो ।





हमारा साथ थारो  
काई काम छै?  
ई थारी समस्या छै ।



क्रुस का ऊपर एक दोष पत्र लिखैल थो। ओखो अर्थ छै।  
(यीशु यहूदी नखो राजा छै)

यीशु न कडवो दाखरस  
पैणसी इंकार करी दीयो।


यीशु का कपडा नसी  
सैनिक खिलवाड करी रया था।



खुद ख बचा  
अन हम ख  
भी बचा।

परमेश्वर सी जरा डर। हम ख  
तो हमारा अपराध नखी सजा  
मिली। पर ई इंशान न तो कोई  
भी अपराध नही करयो हाय।





जब तु स्वर्ग राज्य म आवग  
तो म्हारी सुधी जरुर  
लिजै प्रभु।




लगभग दुई पहर सी तीसरा पहर  
तक अधेरो हुई गयो सारा देश म।

मरियम यीशु की माई, यहून्ना, अन  
ओखा चेला क्रुस का पास खड़ा था

यीशु न ओखी माई ख कयो ।  
माई अब इ थारा छोरा छै ।  
अन चेला न ख भी कयो इ  
तुम्हारी माई छै ।



यीशु की मृत्यु दोपहर म हुई गई। एक सैनिक न यीशु ख  
भाला सी बेधी न दैख्यो तो खुन अन पाणी निकल्यो।




किताब बाइबल म असो लिखैल छै।  
की भेड़ की तरह औ ख कतलखाना  
म लई जाए ग।



हमारा सब पाप न खबा लैण औ  
ख मारी दैए ग। बेधी दैए ग।




काय इज ऊ मसीहा छै जो आवण  
वाल्लो थो? या नही?





काय हम ई शरीर ख गाडी  
सकांज? चलो पूछानां।





यूसुफ, अरिमतिया अन नीकुदेमुस यीशु को  
मरैल शरीर लई गया। ओ ख सफेद कफन  
म लपटी न अन ओखा ऊपर गंधरस लगाई न  
ओख कब्र म रखज। फिर बाद म ऊ दरवाजा  
पर एक बडो धगडो रखी दै ज।



ई सब वात न खत्म हुई जा ण ख बाद  
फसह का त्यौहार का समय म थोड़ी  
सी बाई न ऊ कब्र का पास गई ।



पतरस अन यहून्ना जा ण लगज  
ई वात ख सुणी न कब्र पर



भाई र कब्र का पास बगीचा म

हे नारी तु क्यो रडी र ई?  
तु कुण ख ढुढी र ई?

हे महाराज, काय तुम न  
ओ ख उठाई लियो?

मरियम

स्वामि

म्हारा पास मत रुको।  
जाई न ई वात म्हारा  
भाई न ख बताओ।  
की हाव आ व  
परमेश्वर का पास  
जा ई रयो।


एक दिन यीशु का दुई चेला रास्ता म चलता जा ई न  
एक आदमी ख यीशु का बारा म बताई रया था ।

काय तुम ख भविष्यद्वक्ता न खी वात न पर  
विश्वास नही हाय? दुख उठाऊणो जरुरी थो । यो  
सब किताब (बाईबल) म किखैल छै ।



परन्तु (पर) ऊ वहाँ यीशु थो


रोटी (भोजन)  
खाण के बाद  
अचानक कुण  
आई गयो



बाकी चेला यीशु ख ढुढ न चली गया ।


हम न प्रभु ख देख्यो थो

मरियम अन  
पतरस  
न भी देख्यो ।





अचानक

तुम ख  
शान्ति  
मि ल








काय तुम ख विश्वास  
नी हाय हाव छै? म्हारा  
हाथ, पाए न ख देखो ।

म्हारा प्रभु ।  
म्हारा  
परमेश्वर ।



यीशु उनका अनुयायी न ख ४०  
दिन तक देखाई तो रहयो। एक  
बार तो ऊ ५०० सी ज्यादा लोग  
न ख देखायो अन गलील का  
झील का किनारा पर भी मच्छी  
पकड़न वाला न ख देखायो।



ਪਤਰਸ, ਕਾਧ ਤੁ ਸਚ  
ਮ ਮਹਾਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਜ।

ਧੀਸ਼ੁ ਈਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖ ਪਤਰਸ  
ਸੀ ਤੀਨ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ।

ਹਾਁ ਪ੍ਰਭੁ ਤੁ ਖ ਪਤੋ ਛੈ ਕੀ ਹਾਵ  
ਥਾਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੁਜਾਂ

ਮਹਾਰੀ ਭੇਡ ਨ ਖ ਸਮੱਭਾਲ

ਮਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ  
ਆ ਆ

ਸ਼੍ਰਵਗ ਅਨ ਪ੃ਥਵੀ ਕੋ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮ ਖ  
ਦਿਏਲ ਛੈ। ਏਖਾ ਕਾਰਣ ਤੁਮ ਸਥ ਜਾਤਿ  
ਮ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ ਅਨ ਉਨਖ ਪਿਤਾ,  
ਪੁਤ੍ਰ ਅਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਬਪਤਿਸਮਾ  
ਦੈਵ। ਅਨ ਮਹਾਰੀ ਆਜ਼ਾ ਉਨਖ ਮਾ  
ਨ ਨੋ ਸਿਖਾਓ।

ਈ ਬਾਤ ਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਮ ਯਾਦ ਰਾਖਯੋ। ਹਾਵ ਹਰ ਦਿਨ  
ਅਨ ਦੁਨਿਆ ਕਾ ਅੰਤ ਤਕ ਤੁਮਹਾਰਾ ਸਾਥ ਰਹੁੰ ਗ।

ਈ ਵਾਤ ਖ ਧੀਸ਼ੁ ਕਈ ਨ ਪ੃ਥਵੀ  
ਛੋਡੀ ਨ। ਸ਼੍ਰਵਗ ਮ ਉਠਾਈ ਲੀ ਜਾ  
ਜ। ਅਨ ਏਕ ਦਿਨ ਧੀਸ਼ੁ ਲੋਗ  
ਨਖੋ ਨਿਆਅ ਕਰ ਨ ਅਨ ਉਨਖ  
ਲੈ ਣ ਪਛੋ ਆ ਵਗ।


चेला यरुशलेम म प्रार्थना  
करता था। तो सब नखा  
ऊपर पवित्र आत्मा उतरी  
अन ऊ सब अन्य - अन्य  
भाषा बोल ण लगया।  
आज ऊज पवित्र आत्मा  
लोग न ख साहयता  
कर ण ख लैण तैयार छै।

मृत्यु यीशु सी  
जीती नी सकी।  
परमेश्वर न ओ ख  
जीवित करयो अन ओ  
ख प्रभु बनायो। ऊज  
आज मसीहा छै।




यीशु का अनुयायी न ख बहुत कष्ट अन  
विरोध को सामनो करणो पड्यो।

यीशु परमेश्वर  
को बेटो छै।





येशु को सुसमाचार  
संदेश चेला नखा अन  
पत्र नखा द्वारा लोग न  
का पास आ यो।

ओ न अपना पाप न  
ख खुद ओ ख शरीर  
पर ली लियो ओखी  
मृत्यु क्रुस पर हुई।  
आज हम पाप न खा  
लैण मरी चुक्याज।  
अब हम जीवित नी  
हाय पर हमारा भीतर  
मसीह यीशु जीवित छै।  
हम ख आ व परमेश्वर क  
इच्छा सी जीवणो चाई जै।




अब यीशु का अनुयायी ओ खा ऊपर  
विश्वास करी कर प्रार्थना करज।  
अन बाइबल पढ्ज। यीशु की मृत्यु  
की यादम रोटी तोड़ीकर खाई न अन  
दाखरस पी न ओ ख स्मरण करज।  
परमेश्वर की इच्छा छै की ओ खा  
प्रेम ख एक - दुसरा सी बाटी  
न ओ खी महीमा क र।

यीशु न ई धरती पर परमेश्वर को  
उद्देश्य पूरी तरह सी इंशान न खा  
लैण पूरो कव्यो ।



यीशु हमारा सी प्रेम करज ।  
ओ खो धन्यवाद करो ।  
अन ओ खी आराधना करो ।



क्योकी परमेश्वर न ई दुनिया सी  
असो प्रेम कव्यो की ओ न  
अपनो एक लोतो बेटो दी दीयो ।  
आज जो कोई भी ओ खा ऊपर  
विश्वास कर ग । ऊ नष्ट नी  
होना को पर ऊ हमेशा को  
जीवन पाव ग ।





## बाइबल

यीशु की कहानी बाइबल म लिखैल छै । बाइबल ख सबसी ज्यादा बार लोग न पढी । ई किताब ख लिखणा म १५०० साल लगी गया । १९०० वर्ष म बाइबल पूरी हुई । परमेश्वर इंशान का जीवन म सब प्रकार को काम करज । ऊ सब वात न ई किताब का अन्दर लिखैल छै । परमेश्वर कुण छै । यीशु की वात नसी हम ख समझ म आवज । की ऊ कसो छै ।



## यीशु का इतिहास


बाइबल की ४ किताब म यीशु का जीवन का बाराम बताएल छै । यीशु का समय म लैखक जो था उनको नाव ई छै ।

१) मत्ती : यीशु को चेलो । जो कर वसुली को काम करतो थो । ओ न वर्णन करयो । कि यीशु कसो इस्त्राइली लोग न खा साथ बरताव करतो थो ।

२) मरकुस : यीशु का चमत्कार न ख मरकुस न लिख्यो । जब कार्य करतो थो तब मरकुस किशोरवस्था म थो ।

३) लूका : एक जडा बुटी दे ण वालो वैद्य थो । ऊ व्यक्तिगत रूप सी यीशु ख नही जानतो थो । पर ओ न वर्णन करयो कि कसो यीशु लोग न खा साथ चलतो थो ।

४) यूहन्ना : यीशु का एक अनुयायी, यीशु कुण छै । यो ओ न बतायो । यीशु परमेश्वर छै । ऊ एक इंशान बन्यो । एका लैण ऊ इंशान बन्यो कि लोग नखा पाप सी छुटकारा मिली जाई ।




## ❖ यीशु का जन्म


यीशु की माई मरियम को याव (विवाह) नहीं हुयो थे। यीशु को जन्म हुयो तब मरियम कुवारी थी। यीशु की जन्म की योजना परमेश्वर न पहीं ल सी बणाई थी। इ वात न ख परमेश्वर न पहीं ल सी बाईबल म लिखाड़ी दी। यीशु अलग रंग रूप या महान आदमी नखा जसो पैदा नहीं हुयो थे। ओ खो जन्म ढौर न खा वाड़ा म हुयो थे।

## ❖ यीशु को चमत्कार

यीशु न घणा चमत्कार कव्या। बाईबल म ४० सी भी ज्यादा चमत्कार मोजुद छै। इना चमत्कार न खा द्वारा यीशु परमेश्वर कि ताकत अन ओखा प्रेम को संदेशो लोग न ख दै ज। ऊ लोग नखी मदत करज अन उन खुश रखज।



## ❖ यीशु को मरनो न पुनरुत्थान (पुनर्जीवन)



यीशु क्यो मरी गयो? यखो वर्णन बाइबल म दियल छै। सब लोग जो गलत वात नख करज ऊ वात न परमेश्वर क क्रोधित (गुस्सा) अन दुखी करज। औख पाप कहेज। ई सब पाप लोग नख परमेश्वर की संगती सी दुर रखज। एका कारण यीशु आयो। यीशु खुद हमारा पाप नख ओखा ऊपर लय लियो। ऊ सजा मृत्युदंड की थी। एका कारण यीशु मरी गयो। अन दोबारा हम फिर परमेश्वर सी दोस्ती करी सकांज। लेकिन हमख हमारी गलती नखी क्षमा मांगनो चाईजै। कि यीशु मरैल नम सी जी उठयो। परमेश्वर न ओख जीवित करयो। इस तरह परमेश्वर न देखाइयो की ऊ मरैल नसी भी शक्तिशाली छै। आव यीशु परमेश्वर क साथ म छै।

### प्रार्थना

यदि तुमख गलत वात नखी क्षमा मागणो छै अन परमेश्वर क दोस्त बनाऊणो छै। तो तुम ई प्रार्थना करी सकोज

\* प्यारा परमेश्वर तु हमारा सी प्रेम करज। थारो एकलोतो पुत्र जो क्रुसपर भरी गयो हमारा पाप नखलेण ऊ यीशु क तुन हमारा लेण दियो। म्हारी गलत वात नख अन ऊ पाप नख कृपाकरी न आब मख तु क्षमा प्रदान कर। आ ब यीशु म्हारा साथ छै एका लेण तुख धन्यवाद। काय तु थारी इच्छा सी म ख यो जीवण क लेण मदत क र ग? तु जो वचन दैज वख तु पुरो करज। म्हारी प्रार्थना को उत्तर दीयो ओखा लेण तुख धन्यवाद।



## यीशु अन तुम

यीशु की कहानी को एक अच्छे अन्त है। यीशु बहुत सारा महान लोग नखो दोस्त बण्णी गयो। आव भी अन तब भी दुनीया बदली गई थी। बहुत सारा लोग आ ब गधा अन घोड़ा पर यात्रा नहीं करता हाय। आप लोग कार सी अन हवाईजहाज सी यात्रा करज। लेकिन यीशु पर यखो प्रभाव जरासो भी नहीं पड़तो हाय। जसो ऊ इस्त्राइल म थौ। वसो आव भी हमारा साथ है। ऊ उद्देश्य है। फिर भी ऊ सत्य है। तुम ओखी सुनो ऊ तुम्हारो दोस्त बनन चाहेज।

काय तुमख यीशु का जीवन का बारा म अधिक जानकारी की जरुरत है। तो तुम ई वात नख जो निच दिएल है। उनख करो।


- १) तुम स्यम बाइबल पढो (लुका की लिखैल किताब ओखो भाग पढो।)
- २) प्रार्थना करणो (परमेश्वर क साथ बोलणो अन ऊ शब्द नख सुननो, तुमख कोई विशेष शब्द बोलण की जरुरत नहीं हाय।
- ३) बाइबल का बारा म अन यीशु का बारा म दुसरा नसी वातचीत करणो।  
यीशु चाहेज की ओखा अनुयायी एक दुसरा नसी मिलीकर ऊनख प्रोत्साहित करह।

---

भाषा : पहिलो निमाडी संस्करण : २०२१ (यीशु मसीहा)

Jesus Messiah:- Nimadi language first edition: 2021  
ISBN: 978-94-93178-16-8

Text and illustrations: Willem de Vink.  
Copyright © 1993 Stichting Wereldtaal, Published in Dutch as "Jezus Messias".  
Digital copyright under the terms of the Creative commons BY-SA licence  
All rights of translation, reproduction and adaptation reserved for all countries.



इ यीशु मसीह की एक सच्ची कहानी है। जो २००० साल पहीं ल  
इस्त्राइल म घटी थी। जो कोई ओ खा सी मिलतो थो। ऊ सोच म  
पढ़ी जातो थो। यीशु न जो कथ्यो ओ ख कोई नी करी सकतो।  
अन जो वात न यीशु बाताई ऊ वात कोई नहीं बताई सकतो।  
जहां यीशु जातो अन रहीतो थो। वहां चमत्कार हुवता था।  
जो कोई ओखी सुनतो थो। ऊ आनन्द अन खुशी सी भरी  
जातो थो। लोग न ख अचानक लगतो थो। की अंत हुई गयो।  
ओ खा विरोधी सजा दे ता था। पर वहा अंत नहीं थो। यीशु की  
कहानी (काम) कसो बढ़तो गयो। आ ग काई हुयो तुम खुद पढो  
अन समझो।

भाषा : निमाड़ी

Jesus Messiah: Nimadi language first edition: 2021